

तुरंत रिलीज के लिए

## बिग ब्रैम्पटन आर्टिस्ट स्पेस सर्वेक्षण

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 अगस्त, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की [आर्ट्स, कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री डिवेलपमेंट एजेंसी \(Arts, Culture & Creative Industry Development Agency\)](#) (ए.सी.सी.आई.डी.ए) (ACCIDA), लोकल कलाकारों और कला संगठनों को, पूरे शहर की किफायती जगह तक पहुंच के बारे में फीडबैक प्रदान करने के लिए, [बिग ब्रैम्पटन आर्टिस्ट स्पेस सर्वेक्षण \(BIG Brampton Artist Space Survey\)](#) पूरा करने का निवेदन कर रही है। वर्कशॉप्स तैयार करने, पेश करने और सुगम बनाने, कार्यालय स्थापित करने, काम डिस्पले करने और बेचने के लिए जगह तक पहुंच, ब्रैम्पटन की कला कम्युनिटी की रचनात्मकता और सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर तब, जब यह क्षेत्र कोविड-19 (COVID-19) से बहाल होने का प्रयास कर रहा है।

बिग ब्रैम्पटन आर्टिस्ट स्पेस सर्वेक्षण (BIG Brampton Artist Space Survey), शुक्रवार, 24 सितम्बर तक उपलब्ध होगा। इसमें हिस्सा लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, करीज आर्ट सप्लाइज (Curry's Art Supplies) के लिए 100 डॉलर का गिफ्ट सर्टीफिकेट जीतने के लिए शामिल होगा। सभी कलाकारों और कला संगठनों को हिस्सा लेने की सलाह दी जाती है।

ए.सी.सी.आई.डी.ए. (ACCIDA), सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अधीन विकसित होने वाला बेजोड़ संगठन है, जो कई प्रकार के प्रोग्रामों, सेवाओं और संसाधनों के द्वारा इस क्षेत्र में वृद्धि करने, इसका जशन मनाने, हिमायत करने और जुड़ने पर केंद्रित है। कला कम्युनिटी का फीडबैक, रचनात्मक जगह की जरूरत सहित, प्रोग्रामिंग और सहयोग संबंधी मार्गदर्शन में मदद करेगा।

ए.सी.सी.आई.डी.ए., वीरवार, 26 अगस्त को शाम 6:30 से 8 बजे तक, कलाकारों के लिए जगह के बारे में विचारविमर्श करने के लिए, ऑनलाइन आर्टिस्ट कम्युनिटी राउंडटेबल (Artist Community Roundtable) का आयोजन कर रही है, यह मुफ्त कार्यक्रम, यह विचारविमर्श करने के लिए कि कलाकार कम्युनिटीज और जगहों की कैसे सहायता की जा सकती है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन (Planning and Urban Design) टीमों, शोधकर्ताओं के प्रतिनिधियों सहित, विशेषज्ञों के पैनल को एक साथ लाएगा। विवरणों और रजिस्टर करने के लिए, [accida.ca](http://accida.ca) पर जाएं।

### हवाले

“ए.सी.सी.आई.डी.ए., ब्रैम्पटन के कला और संस्कृति संबंधी माहौल को बेहतर बनाने और सहयोग करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। यह फीडबैक लेना, हमारे कलाकारों और कला संगठनों को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम हमारी रचनात्मक कम्युनिटी को बेहतर ढंग से सशक्त बना पाएं। मैं हर किसी को हिस्सा लेने और अपनी राय देने की सलाह देता हूं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह देखकर मुझे बेहद खुशी है कि ए.सी.सी.आई.डी.ए. ने कला कम्युनिटी में अपना काम शुरू कर दिया है। संपन्न, आत्मविश्वासी और मूल्यवान रचनात्मक माहौल तैयार करने का उनका दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है और इस शहर तथा निवासियों और कारोबारियों की रोज़ाना की ज़िंदगियों के लिए बेहद मूल्यवान है।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, कापॉरिट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन की कला, संस्कृति और रचनात्मक इंडस्ट्री, हमारे शहर के जोशीले मोजैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका काम, हमारे लोकल कलाकारों और कला संगठनों को सहयोग देने में मदद करेगा, ताकि वे ब्रैम्पटन को घर कहने में गर्व महसूस कर पाएं।”

- *डेविड बैरिक् (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

प्रभजोत कैथ (Prabhjot Kainth)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)